

संविदा पर हिन्दी अनुवादक – सह – टंकक को रखने की अनिवार्य योग्यता

1-अनिवार्य योग्यता – हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्नातक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में अनुवाद एवं हिन्दी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान ।

अथवा

स्नातक तथा अनुवादक का एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रशस्ति पत्र एवं हिन्दी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान ।

अथवा

स्नातक तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान एवं हिन्दी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान ।

2- आयु सीमा – 21 – 45 वर्ष । नियमानुसार छुट दी जायेगी ।

3- जिम्मेदारियाँ:

- क. अंग्रेजी में दिए गये सभी texts का हिन्दी में अनुवाद करना ।
- ख. संस्थान के सभी अंग्रेजी प्रार्थना पत्रों का हिन्दी में अनुवाद कर टाइप करना ।
- ग. अंग्रेजी एवं हिन्दी में कम्प्यूटर पर टाइपिंग का कार्य करना ।
- घ. हिन्दी प्रकोष्ठ के समस्त दस्तावेजों का अभिलेख रखना ।
- ङ. राजभाषा प्रकोष्ठ की सभी रिपोर्टों को इकट्ठा कर के भेजना ।
- च. अपने नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप अन्य कार्य करना ।

युशोलाशिक